



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 411]  
No. 411]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 19, 1981/अग्रहायण 28, 1903  
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 19, 1981/AGRAHAYANA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1981

सां० का० नि० 669 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 (1976 का 56) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन निम्नित बीड़ियों को उपकर के उद्गृहीत और संग्रहीत से छूट प्रदान करती है, जिनमें भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 83/80-सी० इ०, दिनांक 19-6-1980 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अंतर्गत उन पर लगाए गए उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त है। यह अधिसूचना भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में पृष्ठ 611 पर सां० का० नि० सं० 330 (ई०), तारीख 19-6-1980 को प्रकाशित हुई थी।

[संख्या एस-23011/1/79-एम-5]

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th December, 1981

G.S.R. 669(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Beedi Workers Cess Act, 1976 (56 of 1976) the Central Government hereby exempts, from the levy and collection of cess under section 3 of the said Act, manufactured beedis which are wholly exempt from the duty of excise leviable thereon under the Central Excises and Salt Act,

1096 GI/81

(1941)

1944 (1 of 1944), vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. 83/80-CE dated 19th June, 1980 published at page 611 of the Gazette of India, Extra-ordinary GSR 330(E), dated 19th June, 1980 in Part II—Sec. 3—Sub-section (i).

[No. S-23011/1/79-M.V]

सां० का० नि० 670 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बीड़ी कर्मकार उपकर अधिनियम, 1976 (1976 का 56) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रति एक हजार विनिर्मित बीड़ियों पर 10 पैसे की दर को उस दर के रूप में नियत करती है जिस पर पहली जनवरी, 1982 से बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) के प्रयोजनार्थ उपकर उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा।

[संख्या एस-23011/1/79-एम-5]

G.S.R. 670(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 (56 of 1976), the Central Government hereby fixes the rate of 10 paise per thousand of manufactured beedis, as the rate at which the duty of excise shall be levied and collected by way of cess for the purposes of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976) with effect from 1st January, 1982.

[No. S-23011/1/79-M.V]

सां० का० नि० 671 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संग्रहण) अधिनियम, 1981 (1981 का 47) की धारा 1 की

अप-घारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहली जनवरी, 1982 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[संख्या एस-23011/1/79-एम० 5]

आर० के० ए० सुब्रह्मण्या, सपर सचिव

**G.S.R. 671(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 1 of the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) Act, 1981 (47 of 1981), the Central Government hereby appoints the 1st day of January, 1982 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. S-23011/1/79-M,V]

R. K. A. SUBRAHMANYA, Addl. Secy.